



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सीमित पहुंच और संचालन समय के साथ ब्रैम्पटन सेमेटरी को दुबारा खोलेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 मई, 2020) – सभी आगंतुकों और स्टाफ की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, शनिवार, 9 मई, 2020 से, 10 विल्सन एवेन्यु (10 Wilson Avenue) पर स्थित, ब्रैम्पटन सेमेटरी (Brampton Cemetery) को नियंत्रित और सीमित पहुंच के साथ दुबारा खोलेगी।

शमशान तक पहुंच, चर्च स्ट्रीट (Church Street) (बीच स्ट्रीट (Beech Street) के बिल्कुल पास) के गेट तक सीमित होगी।

सिटी के, प्राचीन समय के 25 शमशान, अगले नोटिस तक बंद रहेंगे।

बीरीवमेंट अथॉरिटी ऑफ ओनटैरियो (Bereavement Authority of Ontario) द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक, ब्रैम्पटन सेमेटरी में, एक बार में अधिकतम 10 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। हर प्लॉट में पांच से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है। निवासी वहां केवल 15 मिनट तक ही रह सकते हैं।

यदि शामिल होने वाले परिवारों के प्लॉट एक-दूसरे के बिल्कुल साथ लगते होंगे, तो और पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, निवासियों को अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

शारीरिक दूरी जैसे नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, आगंतुकों को पूरा समय लगातार, दूसरों (जो उनके घर में नहीं रहते हैं) से दो मीटर (छह फुट) की दूरी कायम रखनी होगी।

ब्रैम्पटन सेमेटरी के संचालन का समय:

- शनिवार, 9 मई: शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक
- रविवार, 10 मई: बंद
- सोमवार, 11 मई से शुरू करते हुए: सोमवार से शुक्रवार, शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक; शनिवार और रविवार, दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक

बंद रहने के संशोधित समय के बारे में सूचना देने के लिए, ब्रैम्पटन सेमेटरी के बाहर, साइन बोर्ड लगाया जाएगा।

आवश्यक सेवाएं, जैसे दफन करना और दफन करने वाले प्लाट्स की बिक्री, लगातार केवल तय मुलाकात द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। निवासियों को मुलाकात तय करने के लिए 905.874.2997 पर फोन करने का अनुरोध किया जाता है।

ब्रैम्पटन सेमेटरी के साथ-साथ, पूरे शहर में, प्राचीन समय के 25 शमशानों को संभालने की जिम्मेदारी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की है। ब्रैम्पटन के शमशानों की सूची [यहां उपलब्ध \(available here\)](#) है।



हवाला

“हम इसे महत्वपूर्ण समझते हैं कि इस मदर्स डे को परिवार, अपनी स्वर्गीय माताओं और दादियों को श्रद्धांजलि देने में सक्षम हों। सिटी को शमशान बंद करने जैसा मुश्किल निर्णय लेना पड़ा था। पर अब सबसे संभव सुरक्षित तरीके के साथ, ये महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस शनिवार से, सीमित पहुंच और संचालन समय के साथ, सिटी, ब्रैम्पटन सेमेटरी को दुबारा खोल रही है। लेकिन यह रविवार को बंद रहेगी क्योंकि इस दिन बहुत सारे आगंतुकों के आने की संभावना है। हम शारीरिक दूरी जैसे उपायों को कायम रखकर, लगातार हमारे आगंतुकों और स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना चाहते हैं, पर उन लोगों को भी सहयोग करना चाहते हैं, जो इस समय इन सेवाओं तक पहुंच चाहते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca